



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 14—अप्रैल 20, 2012 (चैत्र 25, 1934)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 14—APRIL 20, 2012 (CHAITRA 25, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 27 मार्च 2012

सं. ए. 22012/02/2012-पीएमई--राष्ट्रपति, श्री बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम्, आईएएस (सीजी : 1987) को प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 26 मार्च, 2012 (पूर्वाह्न) से संयुक्त सचिव स्तर में विशेष कार्याधिकारी और दिनांक 30 मार्च, 2012 (अपराह्न) से 25 मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियमित आधार पर संयुक्त सचिव नियुक्त करती हैं।

आर. मैथिली, अवर सचिव

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 मार्च 2012

सं. ए. 19011/01/2011-(प्रशासन)--इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03 जनवरी 2011, में आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) बी. एस. नागल को मुख्य सामरिक कार्यक्रम स्टॉफ (एस. पी. एस.), के पद पर पुनर्नियोजन एवं संविदा आधार पर दिनांक 01 जनवरी, 2011 के पूर्वाह्न से अंतिम वेतन

प्राप्ति के आधार पर 02 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों के जारी होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

एम. एस. एस. नायर, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 2012

सं. ए. 11013/04/2009-प्रशा.-3--राष्ट्रपति जी, योजना आयोग के दिनांक 16.01.2012 के समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में सदस्य (डॉ. सौमित्र चौधरी) के निजी स्टाफ में सह-सत्रावसानी आधार पर नियुक्त श्री देवेन्द्र प्रसाद, निजी सचिव की सेवाएं दिनांक 05 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न से समाप्त करते हैं।

टी. नन्द कुमार, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2012

सं. ए. 12025(i)/01/2007/प्रशा-I-(वि.वि.) पार्ट--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में सहायक विधायी परामर्शी (भारतीय

विधि सेवा का ग्रेड IV) श्री के. वि. कुमार को विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में तदर्थ आधार पर उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) के पद पर रुपए 15,600--39,100/- के वेतन बैंड और रुपए 7,600/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 15 फरवरी, 2012 की पूर्वाह्न से तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हों, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्री के. वि. कुमार को उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी। और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

एम. आर. बीर, निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 22 मार्च 2012

सं. ए. 32014/1/2005-प्रशा.-I (वि.वि.) --सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री के. के. शर्मा, सहायक (विधि) को विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में रुपए 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा रुपए 4,800/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 22 मार्च, 2012 से छः माह तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक अधीक्षक (विधि) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त किया जाता है।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें अधीक्षक (विधि) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

एम. आर. बीर, निदेशक (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 मार्च 2012

सं. I-18011/05/2012-आई. पी. एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के छत्तीसगढ़ संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं:

| क्रं. सं. | परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम | स्थाई किए जाने की तिथि |
|-----------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री ध्रुव गुप्ता, भा.पु.से., (छत्तीसगढ़ : 2005) | 17.09.2008 |
| 2. | सुश्री पारूल माथुर, भा.पु.से., (छत्तीसगढ़ : 2008) | 01.09.2010 |
| 3. | सुश्री नीधु कमल, भा.पु.से., (छत्तीसगढ़ : 2008) | 01.09.2010 |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|------------|
| 4. | श्री प्रशान्त कुमार अग्रवाल, भा.पु.से., (छत्तीसगढ़ : 2008) | 22.12.2010 |

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई. पी.एस.-IV)

दिनांक 29 मार्च 2012

सं. I-18011/06/2011-आई. पी. एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं:

| क्रं. सं. | परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम | स्थाई किए जाने की तिथि |
|-----------|---|------------------------|
| 1. | श्री ए. एन्टो एलफोन्स, भा.पु.से., (ए.जी.एम.यू.टी. : 2008) | 01.09.2010 |
| 2. | श्री अतुल कुमार ठाकुर, भा.पु.से., (ए.जी.एम.यू.टी. : 2008) | 01.09.2010 |
| 3. | श्री देशराज सिंह, भा.पु.से., (ए.जी.एम.यू.टी. : 2008) | 01.09.2010 |
| 4. | श्री पंकज कुमार सिंह, भा.पु.से., (ए.जी.एम.यू.टी. : 2008) | 01.09.2010 |

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई. पी.एस.-IV)

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2012

सं. आई-14011/02/2011-आईपीएस-1(I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 20.03.2012 को चयन समिति की दिनांक 21.12.2011 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2006, 2009 और 2010 की उन चयन सूचियों को अनुमोदित कर दिया है जिनमें भारतीय पुलिस सेवा के हरियाणा संवर्ग में 1, शून्य, शून्य, 2 एवं 8 कुल 11 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु हरियाणा पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है:-

चयन सूची-2006

| क्रं. सं. | नाम | जन्म तिथि |
|-----------|------------------|------------|
| | सर्व/श्री | |
| 1. | हुकम सिंह | 02.06.1953 |
| 1A*@ | डी. के. भारद्वाज | 21.07.1962 |

* क्रम सं. 1ए पर दिये गये नाम को राज्य सरकार द्वारा उन्हें सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के अध्यक्षीन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

@ क्रम संख्या 1ए पर उपस्थित नाम को चयन सूची में अतिरिक्त रूप से सम्मिलित किया गया है। श्री डी. के. भारद्वाज का नाम, राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रदान करने के अध्यक्षीन होने के कारण चयन सूची 2005 में अस्थाई रूप से सम्मिलित किया गया था श्री डी. के. भारद्वाज को राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रदान न करने के कारण चयन सूची 2005 के आधार पर नियुक्त नहीं किया जा सका। माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 21.08.06 के आदेशानुसार एक पद श्री डी. के. भारद्वाज के लिये आरक्षित किया गया है। चूंकि श्री डी. के. भारद्वाज राज्य पुलिस सेवा के सदस्य बने रहें। अतः पदोन्नति अधिनियम 5 (2) के उपबन्ध के आधार पर उनका नाम 2006 तथा उसके पश्चात् आने वाले वर्षों की रिक्तियों के लिये विचारणीय किया गया है। श्री डी. के. भारद्वाज के लिये 2005 में एक पद आरक्षित किया गया था। अतः उन्हें विचार क्षेत्र के सामान्य आकार में अतिरिक्त रूप से सम्मिलित किया गया और चयन समिति ने उन्हें चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु योग्य पाया है। अतः उनका नाम चयन सूची के सामान्य आकार में अतिरिक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

चयन सूची-2009

| क्रं. सं. | नाम | जन्म तिथि |
|-----------|-------------|------------|
| सर्वश्री | | |
| 1* | पत राम सिंह | 01.04.1957 |
| 2. | वेद प्रकाश | 24.11.1955 |

* क्रम सं. 1 पर दिये गये नाम को राज्य सरकार द्वारा उन्हें सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के अध्यक्षीन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

चयन सूची-2010

| क्रं. सं. | नाम | जन्म तिथि |
|-----------|----------------|------------|
| सर्वश्री | | |
| 0A*@ | पत राम सिंह | 01.04.1957 |
| 1. | अनिल कुमार | 04.09.1957 |
| 2. | कुलविन्दर सिंह | 03.12.1964 |
| 3. | सुखबीर सिंह | 06.10.1961 |
| 4. # | अशोक कुमार | 02.04.1956 |
| 5. | अरुण सिंह | 18.08.1964 |
| 6. | अशोक कुमार | 04.07.1967 |
| 7. | ओम प्रकाश | 04.04.1968 |
| 8. | राम कुमार | 15.01.1957 |

*क्रम सं. 0A पर दिये गये नाम को राज्य सरकार द्वारा उन्हें सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के अध्यक्षीन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

क्रम सं. 4 पर दिये गये नाम को उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक मामले के निपटान तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के अध्यक्षीन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

@ क्रम सं. 0A पर उल्लिखित नाम को भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5 (5) के दूसरे परन्तुक के अनुसरण में चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त सूची में शामिल किया गया है।

बलदेव राज, अवर सचिव

सं. आई-14011/02/2011-आईपीएस-1 (II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत हरियाणा संवर्ग प्रदान करते हैं:-

चयन सूची-2009

| क्रं. सं. | नाम | जन्म तिथि |
|-----------|-----------------|------------|
| 1. | श्री वेद प्रकाश | 24.11.1955 |

चयन सूची-2010

| क्रं. सं. | नाम | जन्म तिथि |
|-----------|----------------|------------|
| सर्वश्री | | |
| 1. | अनिल कुमार | 04.09.1957 |
| 2. | कुलविन्दर सिंह | 03.12.1964 |
| 3. | सुखबीर सिंह | 06.10.1961 |
| 4. | अरुण सिंह | 18.08.1964 |
| 5. | अशोक कुमार | 04.07.1967 |
| 6. | ओम प्रकाश | 04.04.1968 |
| 7. | राम कुमार | 15.01.1957 |

2. यह नियुक्तियाँ अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

बलदेव राज, अवर सचिव

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2012

सं. 12/22/2012-प्रशा.--राष्ट्रपति जी, श्री मुकुल चंद्र लहकर को वेतनमान (9,300--34,800/- रु.) जमा 4,800/- रु. ग्रेड पे में दिनांक 12.07.2011 (अपराह्न) से मंत्री जी के साथ को-टर्मिनस आधार पर या तब तक, जब वे मंत्री के प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में काम करना बंद कर देते हैं, या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संसदीय कार्य (श्री पवन सिंह घाटेवार) के वैयक्तिक स्टाफ में प्रथम वैयक्तिक सहायक नियुक्त करते हैं।

एल. बी. तोल्टे, अवर सचिव

सं. 12/17/2012-प्रशा.--राष्ट्रपति जी, श्री हीरा आचार्य को पीबी-3 (15,600--39,100/- रु.) जमा 6,600/- रु. ग्रेड पे में दिनांक 12.07.2011 (अपराह्न) से मंत्री जी के साथ को-टर्मिनस आधार पर या तब तक, जब वे मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में काम करना बंद कर देते हैं, या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संसदीय कार्य (श्री पवन सिंह घाटेवार) के वैयक्तिक स्टाफ में अतिरिक्त निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

एल. बी. तोल्टे, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

ऋण वसूली अधिकरण

कोच्ची-682036, दिनांक 2 फरवरी 2012

सं. 4/2/2003-डी आर टी-प्रशा.--समादेश याचिका (ग) 25574/2010 में माननीय उच्च न्यायालय केरल के आदेश के अनुपालन में और दिनांक 17.12.2010 को आयोजित बैठक में निजी सचिव का पद भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर विभागाध्यक्ष एतद्वारा इस अधिकरण के श्री रेजी के जोर्ज, आशुलिपिक, ग्रेड 'ग' को दिनांक 17.12.2010 अपराह्न से वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- ग्रेड वेतन रु. 4,600/- में निजी सचिव वर्ग 'ख' राजपत्रित गैर सचिवीय के पद पर नियुक्त करता है।

2. यह नियुक्ति अनंतिम है और उपर्युक्त समादेश याचिका 'ग' 25574/2012 में माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन है।

जी. ई. नंपुतिरी, सहायक रजिस्ट्रार

सं. 3/1/2003-डी आर टी-प्रशा.--इस अधिकरण, श्री के. वी. पीटर, सहायक को दिनांक 16.02.2010 (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- ग्रेड वेतन 4,600/- में विधिवत् संस्थापित विभागीय पदोन्नति समिति के सिफारिश पर अनुभाग अधिकारी वर्ग 'ख' राजपत्रित गैर अनुसचिवीय के पद पर नियुक्त किया गया है।

जी. ई. नंपुतिरी, सहायक रजिस्ट्रार

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 2012

सं. ए-12026/5/2010-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्री राजीव कुमार, भाप्रसे (जेएच : 84) को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में, 37,400--67,000/- रुपए (पी.बी.-4) के वेतन बैंड + रु. 10,000/- (ग्रेड पे) में 19 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

बिप्लब कुमार रॉय, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 मार्च 2012

सं. पीएफजी(475)/89-प्रशा.-II--केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 448 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अरविन्द शुक्ला को दिनांक 06.02.2012 से अगले आदेश तक स्थानापन्न आधार पर शासकीय समापक, चेन्नई के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।

आर. के. पांडेय, अवर सचिव

सं. पीएफजी(538)/96-प्रशा.-II--केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 448 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एस. चन्द्रशेखरन को दिनांक 05.03.2012 से अगले आदेश तक स्थानापन्न आधार पर शासकीय समापक, हैदराबाद के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।

आर. के. पांडेय, अवर सचिव

दिनांक 27 मार्च 2012

सं. पीएफजी(604)/99-प्रशा.-II--केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एस. पी. चुगा को दिनांक 23.01.2012 से अगले आदेश तक कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, अहमदाबाद में उप कंपनी रजिस्ट्रार नियुक्त करती है।

आर. के. पांडेय, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 मार्च 2012

सं. पीएफजी(1016)/2012-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्री नवनीत चौहान, आई. टेली.एस. (1995) को 30 मार्च, 2012 की पूर्वाह्न से 29 मार्च, 2017 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, कारपोरेट कार्य मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 2012

सं. ए-32015/1/2009-आ.स. (प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, श्रीमती शालिनी भटनागर, स्थाई कनिष्ठ अन्वेषक आर्थिक (जो कि वर्तमान में तदर्थ आधार पर आर्थिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं) को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय में आर्थिक अधिकारी की वर्ष 2012 की वरीयता कोट के लिए आर्थिक अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल करने के योग्य पाये जाने पर दिनांक 16.3.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक नियमित आधार पर आर्थिक अधिकारी (वर्ग 'ख' पर राजपत्रित) के पद पर पी.बी.-2 में वेतन रुपये 9,300--34,800/- और ग्रेड वेतन रुपये 4,600/- के वेतनमान नियुक्त करते हैं।

एस. एस. नेगी, आर्थिक सलाहकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च 2012

सं. ए-22011/1/2010-स्थापना (पार्ट)--संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2006, 2007 और 2008 के परिणाम के आधार पर एवं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.10.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/3/2011-सीएस.1(एस) के तहत अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची 2007 में उनका नाम शामिल किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय सेवा के नियमित वैयक्तिक सहायक श्री गया प्रसाद को दिनांक 01.03.2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में श्री प्रसाद की नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के निर्णय के अध्वधीन होगी :--

- (vi) श्री सौरांशु सिन्हा द्वारा भारत संघ के विरुद्ध केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओए सं. 1083/2007 एमए सं. 1171/2007 एवं 2011 का एमए।
- (vii) श्री ए. के. नंदी और अन्य द्वारा भारत संघ के विरुद्ध केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओए सं. 2136/2010
- (viii) श्री विकास त्रिपाठी और अन्य द्वारा भारत संघ के विरुद्ध केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओए सं. 2469/2010
- (ix) श्री ए. प्रकाश और अन्य द्वारा भारत संघ के विरुद्ध केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओए सं. 1253/2009
- (x) श्री प्रदीप कुमार मोंडल द्वारा भारत संघ और अन्य के विरुद्ध केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली

में दायर ओए सं. 2584/2011 एवं एमए सं. 1987/2011

पी. पी. मुरलीधरन
उप सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2012

सं. ए-11011/6/2007-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 मार्च, 2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/3/2011-सी. एस.11(ए) द्वारा केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव की वर्ष 2010 की चयन सूची में उनके नाम शामिल कर लिए जाने के परिणामस्वरूप इस विभाग के केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित तदर्थ प्रधान निजी सचिवों को दिनांक 20 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, उपभोक्ता मामले विभाग में नियमित आधार पर केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं:--

| क्र. सं. | नाम |
|----------|----------------------|
| 1. | श्री राना दास |
| 2. | श्री महेन्द्र प्रसाद |

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2012

सं. ए 38014/13/2011-स्था. 1--खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव श्री एच. सी. भाटिया अधिवर्षिता की आयु होने पर 29 फरवरी, 2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

अरुण कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 23 मार्च 2012

सं. ए 38014/16/2011-स्था. 1--खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव श्रीमती नरेन्द्र कौर विदी अधिवर्षिता की आयु होने पर 31 मार्च, 2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जाएंगी।

अरुण कुमार सिंह, अवर सचिव

सं. ए 38014/17/2011-स्था. 1--खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री वेद सिंह

अधिवर्षिता की आयु होने पर 31 मार्च, 2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

अरुण कुमार सिंह, अवर सचिव

सं. ए 38014/15/2011-स्था. 1--खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केंद्रीय सचिवालय सेवा के निदेशक श्री सतपाल अधिवर्षिता की आयु होने पर 31 मार्च, 2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

अरुण कुमार सिंह, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 28 मार्च 2012

सं. ए 12025/68/2011-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अमित कुमार यादव को दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उप-संवर्ग में विकृति विज्ञान की स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करती हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 मार्च 2012

सं. ए-12026/2/2011-आ.प्र.--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस:82) की एक अधिकारी डॉ (श्रीमती) आनंदी रविचन्द्रन को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी), कृषि एवं सहकारिता विभाग में 1 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए 37,400--67,000/- रुपये + 10,000/- रुपये ग्रेड पे में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सदस्य सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 2012

सं. 4-4/2006-विस्तार--राष्ट्रपति विस्तार निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में श्री एस.एम.एच. काजमी, संयुक्त निदेशक (एफआई) की पे बैंड-3, 15,600--39,100/- रुपये + ग्रेड पे 7,600/- रुपये में निदेशक (एफआई) जीसीएस, समूह 'क' राजपत्रित के रूप में नियुक्ति को तदर्थ आधार पर दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 से आगे तीन महीने की अवधि के लिए अर्थात् 27 मार्च, 2012 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, जारी रखती हैं।

2. यह तदर्थ प्रोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित रूप से जारी रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा

निदेशक (एफआई) के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगी।

आर. एस. वर्मा, अवर सचिव

सं. 4-5/2005-विस्तार--राष्ट्रपति विस्तार निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में श्री सी. के. हरिदास, संयुक्त निदेशक (एफआई) जीसीएस, समूह 'क' राजपत्रित की पे बैंड-3, 15,600--39,100/- रुपये + ग्रेड पे 6,600/- रुपये में नियुक्ति को तदर्थ आधार पर दिनांक 01 जनवरी, 2012 से आगे तीन महीने की अवधि के लिए अर्थात् 31 मार्च, 2012 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, जारी रखती हैं।

2. यह तदर्थ प्रोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित रूप से जारी रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा संयुक्त निदेशक (एफआई) के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगी।

आर. एस. वर्मा, अवर सचिव

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 मार्च 2012

सं. ए-15012/7/2011-प्रशासन-1--इस विभाग के श्री सुभाष चन्द्र खत्री, अवर सचिव को अधिवर्षिता की आयु पूरी करने के बाद, दिनांक 31 मार्च, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

सुभाष चन्द्र खत्री, अवर सचिव

सं. ए-15012/08/2011-प्रशासन-1--इस विभाग के श्री अभय राज सिंह यादव, अनुभाग अधिकारी को अधिवर्षिता की आयु पूरी करने के बाद, दिनांक 31 मार्च, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

सुभाष चन्द्र खत्री, अवर सचिव

सं. ए-15012/10/2011-प्रशासन-1--इस विभाग की श्रीमती नीलम भटनागर, निजी सचिव को अधिवर्षिता की आयु पूरी करने के बाद, दिनांक 31 मार्च, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

सुभाष चन्द्र खत्री, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 मार्च 2012

सं. 3-29/2009-मा.(प्रशा.)--राष्ट्रपति, श्री ए. रविचन्द्रन, को केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), कोची

में 15,600--39,100/- रुपए के वेतनमान में और 6,600/- रुपए ग्रेड वेतन के साथ 16.03.2012 (अपराह्न से) अस्थाई आधार पर और आगामी आदेश जारी होने तक मुख्य अनुदेशक (मरीन इंजीनियरिंग) (सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय) नियुक्त करते हैं।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110114, दिनांक 29 मार्च 2012

सं. ए-12021/01/1999-स्थापना-II--राष्ट्रपति, श्री हरभजन सिंह को वर्ष 2011 के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) संवर्ग की प्रवर सूची में उनके नाम को सम्मिलित किए जाने पर, दिनांक 17.02.2012 (पूर्वाह्न) से पे-बैंड 3, 15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड पे 7,600/- रुपए में ग्रामीण विकास मंत्रालय में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

जॉर्ज वाई., अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 फरवरी 2012

सं. पीएफ-589/प्रशासन-I--श्री चंद्र प्रकाश, सदस्य (प्रौद्योगिकी) दूरसंचार आयोग और पदेन सचिव, भारत सरकार, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 29 फरवरी, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

निर्मला देव, अवर सचिव

दिनांक 29 फरवरी 2012

सं. पीएफ-1423/प्रशासन-I--श्री जवाहर लाल, अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) दूरसंचार विभाग, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 29 फरवरी, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

निर्मला देव, अवर सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 मार्च 2012

सं. पीएफ/2723/एनआईसी/2012-प्रशा.-I--श्री रमेश चन्द्र पात्रा, वैज्ञानिक-एफ, कर्मचारी कोड सं. 2723, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, उड़ीसा राज्य एकक, भुवनेश्वर 29 फरवरी, 2012 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, संयुक्त निदेशक (प्रशा.-I)

सं. पीएफ/44/एनआईसी/2012-प्रशा.-I--श्री नब कुमार दास, वैज्ञानिक-जी, (उपमहानिदेशक), कर्मचारी कोड सं. 44, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, पश्चिम बंगाल राज्य एकक, कोलकाता 31 जनवरी, 2012 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, संयुक्त निदेशक (प्रशा.-I)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 2012

सं. ईआरबी-I/2007/10/4--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 29.02.2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं :-

- (i) सुश्री बी. के. मिन्ज़, संयुक्त सचिव (ई)
- (ii) श्री परमजीत सिंह, वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव
- (iii) श्री एस. सी. शर्मा, उप निदेशक
- (iv) श्री ए. के. माहेश्वरी, उप निदेशक
- (v) श्री प्रेम कुमार, अनुभाग अधिकारी
- (vi) श्री के. एस. दीक्षित, अनुभाग अधिकारी

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-I/2007/10/4--श्री एल. सी. बजाज, उप निदेशक, रेलवे बोर्ड 29.02.2012 के अपराह्न से सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-I/2007/10/4--श्री संजीव हान्डा, सदस्य यांत्रिक, रेलवे एवं रेल मंत्रालय में भारत सरकार के पदेन सचिव अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 29.02.2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 23 मार्च 2012

सं. ईआरबी-I/2011/2/32--श्री बी. मजूमदार, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आरबीएसएस) के निदेशक ग्रेड के अधिकारी को 01.03.2012 के पूर्वाह्न से वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड पे रु. 10,000/- का पे बैंड-4) में पदोन्नत किया गया है।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2012

सं. ए-38013/02/2011-स्थापना-II(बी)---सेवा निवृत्ति की आयु पूरी करने पर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली में साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' के अधिकारी श्री ए. के. मजुमदार, मुख्य प्रारूपकार, दिनांक 31.01.2012 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

डी. आर. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 22 मार्च 2012

सं. ए-12025/1/2012-ई-II--राष्ट्रपति, श्री अमित मुंजाल को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, में दिनांक 01.03.2012 (पूर्वाह्न) से तथा आगामी आदेशों तक वेतनमान रु. 15,600--39,100/- + 5,400/- ग्रेड पे में केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) समूह 'क' के सहायक कार्यपालक अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त करते हैं।

देव राज शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-12025/1/2012-ई-II--राष्ट्रपति, श्री अर्पण कुमार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, में दिनांक 28.02.2012 (पूर्वाह्न) से तथा आगामी आदेशों तक वेतनमान रु. 15,600--39,100/- + 5,400/- ग्रेड पे में केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) समूह 'क' के सहायक कार्यपालक अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त करते हैं।

देव राज शर्मा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2012

सं. 04/2012 फा. सं. 12/12/2011-प्रशा-II--अधिर्वर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री कैलाश चंद्र शर्मा, अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय 31 दिसंबर, 2011 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. पी. बोस, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 2012

सं. ए-22012/3/2012-प्रशा.-I--राष्ट्रपति द्वारा श्री सुशील कुमार, आई ए एस (यूपी : 82), को 09.03.2012 (अपराह्न) से पांच वर्ष के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में 37,400--67,000/- रु. के पे बैंड + 10,000/- रु. के ग्रेड वेतन में संयुक्त सचिव (आवास) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

दिनांक 26 मार्च 2012

सं. ए-22013/3/2011-प्रशा.-I--राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा विभाग के दिनांक 10.2.2012 के आदेश सं. 5/15/2011-रा.भा. (सेवा) तथा दिनांक 27.02.2012 के परवर्ती आदेशों में निहित आदेशों के अनुसार तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (रा.भा.) के ग्रेड में प्रोन्नयन के फलस्वरूप दिनांक 27.02.2012 (पूर्वा.) से श्री अरूण कुमार शर्मा, वरिष्ठ अनुवादक को तदर्थ आधार सहायक निदेशक (रा.भा.) के पर नियुक्त किया जाता है।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

दिनांक 29 मार्च 2012

सं. ए-22017/1/2006-प्रशा.-I(पार्ट)--राजभाषा विभाग के आदेश सं. 5/16/2011-रा.भा. (सेवा) दिनांक 09.02.2012 में निहित आदेशों के अनुसार उप निदेशक (राजभाषा) के ग्रेड में तदर्थ आधार पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति श्री ओम प्रकाश, सहायक निदेशक (राजभाषा) को 06.03.2012 से तदर्थ आधार पर उप निदेशक (राजभाषा) को पद पर नियुक्त करते हैं।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 27th March 2012

No. A-22012/02/2012-PME—The President is pleased to appoint Shri B.V.R. Subrahmanyam, IAS (CG:1987) in Prime Minister's Office as Officer on Special Duty at the level of Joint Secretary w.e.f. the forenoon of 26th March 2012 and as regular Joint Secretary w.e.f. the afternoon of 30th March 2012 for a period upto 25th March 2015 or until further orders, whichever is earlier.

R. MYTHILI, Under Secy.

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 20th March 2012

No. A-19011/1/2011-Admn.—In partial modification of this Secretariat's Notification of even number dated 3rd January 2011, the President is pleased to appoint Lt. Gen. (Retd.) B. S. Nagal as Chief, Strategic Programme Staff (SPS) in National Security Council Secretariat on re-employment on contract basis for a period of two years or until further orders whichever is earlier, on the basis of last pay drawn with effect from the forenoon of 1st January 2011.

M. S. S. NAIR, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 21st March 2012

No. A-11013/04/2009-Admn.III (Vol.II)—In continuation of Planning Commission's Notification of even number dated 16-01-2012, the President is pleased to terminate the services of Shri Devendra Prasad as Private Secretary on co-terminus basis in the personal staff of Member (Dr. Saumitra Chaudhari) with effect from the forenoon of 5th March, 2012.

T. NANDA KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 13th March 2012

No. A-12025(i)/1/2007-Admn.I(L.D.)-Pt.—The President is pleased to appoint Shri K. V. Kumar, Assistant Legislative Counsel (Grade-IV of Indian Legal Service) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Deputy Legislative Counsel (Grade III of Indian Legal Service) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- in the said Department of Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period of three months with

effect from the forenoon of 15th February, 2012 or until further orders, whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment will neither bestow on Shri K. V. Kumar any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Deputy Legislative Counsel (Grade III of ILS) nor the ad hoc services rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

M. R. BEERH, Director(Admn.)

The 22nd March 2012

No. A-32014/1/2005-Admn.I(L.D.)—The Competent Authority is pleased to appoint Shri K. K. Sharma, Assistant (Legal) to officiate as Superintendent (Legal) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade pay of Rs. 4,800/- in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period of six months with effect from the forenoon of 22-03-2012 or until further orders.

2. This ad hoc appointment will neither bestow on him any claim whatsoever for regular appointment to the grade of Superintendent (Legal) nor the services so rendered by him will count for the purpose of seniority in the higher grade.

M. R. BEERH, Director (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 28th February 2012

No. I-18011/05/2012/IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service borne on the Cadre of Chhattisgarh with effect from dates mentioned against their names :—

| S. No. | Name of the IPS Probationers | Date of Confirmation |
|--------|--|----------------------|
| | S/Shri | |
| 1. | Dhruva Gupta, IPS (CG : 2005) | 17.09.2008 |
| 2. | Ms. Parul Mathur, IPS (CG : 2008) | 01.09.2010 |
| 3. | Ms. Nithu Kamal, IPS (CG : 2008) | 01.09.2010 |
| 4. | Prashant Kumar Agrawal IPS (CG : 2008) | 22.12.2010 |

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

The 29th March 2012

No. I-18011/06/2012/IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service borne on the Cadre of AGMUT with effect from dates mentioned against their names :—

| S. No. | Name of the IPS Probationers | Date of Confirmation |
|--------|--|----------------------|
| | S/Shri | |
| 1. | A. Anto Alphonse, IPS (AGMUT : 2008) | 01.09.2010 |
| 2. | Atul Kumar Thakur, IPS (AGMUT : 2008) | 01.09.2010 |
| 3. | Deshraj Singh, IPS (AGMUT : 2008) | 01.09.2010 |
| 4. | Pankaj Kumar Singh IPS ((AGMUT : 2008) | 01.09.2010 |

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

New Delhi, the 29th March 2012

No. I-14011/02/2011-IPS.I(I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 20.03.2012, approved the year-wise Select Lists of the years 2006, 2009 and 2010, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 21.12.2011, containing the names of the following State Police Service Officers of Haryana Cadre, towards filling up 1, Nil, Nil, 2 & 8 substantive vacancies during the years 2006 to 2010 respectively in the IPS Haryana Cadre :—

Select List 2006

| Sl. No. | Name | Date of Birth |
|-----------|----------------|---------------|
| | (S/Shri) | |
| 1. | Hukum Singh | 02.06.1953 |
| 1.A * (@) | D. K. Bhardwaj | 21.07.1962 |

* The name at Sl. No. 1A has been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government.

@ The name at Sl. No. 1A is included in the list in addition to the normal size of the Select List. The name of Shri D. K. Bhardwaj was included in the select list of 2005 provisionally, subject to grant of integrity certificate by the State Government. Shri D. K. Bhardwaj could not be appointed on the basis of inclusion of his name in the

select list of 2005 as his integrity was not certified by the State Government. As per the order dt. 21.8.2006 of the Hon'ble High Court, one vacancy has been reserved for Shri D. K. Bhardwaj. However, as Shri Bhardwaj continues to be a member of the State Police Service, he has been considered against the vacancies for the year 2006 onwards also as per the provisions of Regulation 5(2) of the Promotion Regulations. However, as one vacancy has already been reserved for Shri Bhardwaj in 2005, he was considered in addition to the normal zone of consideration and since he was found suitable for inclusion in the select lists by the Selection Committee, his inclusion in the select list of 2006 onwards has been made in addition to the normal size of the select list.

Select List 2009

| Sl. No. | Name | Date of Birth |
|---------|---------------|---------------|
| | (S/Shri) | |
| 1. # | Pat Ram Singh | 01.04.1957 |
| 2. | Ved Prakash | 24.11.1955 |

The name at Sl. No. 1 in the list has been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government.

Select List 2010

| Sl. No. | Name | Date of Birth |
|----------|-----------------|---------------|
| | (S/Shri) | |
| 0.A *(@) | Pat Ram Singh | 01.04.1957 |
| 1. | Anil Kumar | 04.09.1957 |
| 2. | Kulvinder Singh | 03.12.1964 |
| 3. | Sukhbir Singh | 06.10.1961 |
| 4.# | Ashok Kumar | 02.04.1956 |
| 5. | Arun Singh | 18.08.1964 |
| 6. | Ashok Kumar | 04.07.1967 |
| 7. | Om Parkash | 04.04.1968 |
| 8. | Ram Kumar | 15.01.1957 |

* The name at Sl. No. 0A has been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government.

The name at Sr. No. 4 has been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

@ The name at Sr. No. 0A has been included in the list in addition to the normal size of the Select List in pursuance

to the 2nd proviso to Regulation 5 (5) of the IPS (Appointment by Promotion) Regulations 1955.

BALDEV RAJ, Under Secy.

No. I-14011/02/2011-IPS.I(II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Haryana Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of Haryana under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List 2009

| Sl. No. | Name | Date of Birth |
|---------|-----------------|---------------|
| | Sh. Ved Prakash | 24.11.1955 |

Select List 2010

| (S/Shri) | | |
|----------|-----------------|------------|
| 1. | Anil Kumar | 04.09.1957 |
| 2. | Kulvinder Singh | 03.12.1964 |
| 3. | Sukhbir Singh | 06.10.1961 |
| 4. | Arun Singh | 18.08.1964 |
| 5. | Ashok Kumar | 04.07.1967 |
| 6. | Om Parkash | 04.04.1968 |
| 7. | Ram Kumar | 15.01.1957 |

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

BALDEV RAJ, Under Secy.

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN
REGION

New Delhi-110011, the 30th March 2012

No. 12/22/2012-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Mukul Chandra Lahkar as 1st Personal Assistant in the personal staff of MOS (IC), Ministry of Development of North Eastern Region and Parliamentary Affairs (Sh. Paban Singh Ghatowar) in the pay scale of (Rs. 9,300—34,800/-) plus Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 12.7.2011 (A/N) on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as 1st Personal Assistant to the Minister or till further order whichever event occurs the earliest.

L. B. TUOLTE, Under Secy.

No. 12/17/2012-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Heera Acharya as Additional Private Secretary in the personal staff of MOS (IC), Ministry of Development of North Eastern Region and Parliamentary Affairs (Sh. Paban Singh Ghatowar) in the PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) plus Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from 12.7.2011 (A/N) on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as additional Private Secretary to the Minister or till further order whichever event occurs the earliest.

L. B. TUOLTE, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

Kochi-682036, the 2nd February 2012

No. 4/2/2003—DRT-Admn.—In compliance with the order of the Hon'ble High Court of Kerala dated 16.08.2010 in WP(c) 25574/2010 and on the recommendation of the Departmental Promotion Committee for filling up the post of Private Secretary at the meeting held on 17.12.2010, the Head of the Department hereby appoints Shri Regi K. George, Stenographer Grade 'C' in this Tribunal to the post of Private Secretary (Group B, Gazetted, Non-Ministerial) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- Grade Pay Rs. 4,600/- with effect from 17.12.2010 (AN).

2. The appointment is provisional and is subject to final orders of the Hon'ble High Court of Kerala in the above stated WP(c) 25574/2010.

G. E. NAMPOOTHIRI, Asstt. Registrar

No. 3/1/2003-DRT-Admn.—On the recommendation of the duly constituted Departmental Promotion Committee, Shri K. V. Peter, Assistant of this Tribunal has been appointed to the post of Section Officer (Group B, Gazetted, Non-Ministerial) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- Grade Pay 4,600/- with effect from 16.02.2010 (FN).

G. E. NAMPOOTHIRI, Asstt. Registrar

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 27th March 2012

No. A-12026/5/2010-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Rajiv Kumar, IAS (JH:84), as Joint Secretary in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + Rs. 10,000/- (Grade Pay) with effect from the forenoon of the 19th March, 2012

for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

BIPLAB KUMAR ROY, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 26th March 2012

No. PFG(475)/89-Admn.II—In exercise of the powers conferred by Section 448 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri Arvind Shukla to officiate as Official Liquidator, Chennai with effect from 06.02.2012, until further orders.

R. K. PANDEY, Under Secy.

No. PFG(538)/96-Admn.II—In exercise of the powers conferred by Section 448 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri S. Chandrasekaran to officiate as Official Liquidator, Hyderabad with effect from 05.03.2012, until further orders.

R. K. PANDEY, Under Secy.

The 27th March 2012

No. PFG(604)/99-Admn.II—In exercise of the powers conferred by Sub-section 2 of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri S. P. Chuga, as Deputy Registrar of Companies in the Office of Registrar of Companies, Ahmedabad w.e.f 23.01.2012, until further orders.

R. K. PANDEY, Under Secy.

New Delhi, the 30th March 2012

No. PFG(1016)/2012-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Navneet Chouhan, I. Tele S. (1995) as Director in the Ministry of Corporate Affairs for a period of five years with effect from the forenoon of 30th March, 2012 and upto 29th March, 2017 or until further orders, whichever events takes place earlier.

J. S. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER

New Delhi, the 28th March 2012

No. A-32015(1)/2009-Ec.Ad.(Admn.I)—The President is pleased to appoint Smt. Shalini Bhatnagar, permanent Junior

Investigator (officiating as Economic Officer on ad hoc basis) who has been found suitable for inclusion in the select list of Economic Officer grade for the year 2012 against seniority quota as Economic Officer (Group 'B' Gazetted) in the Ministry of Commerce & Industry, Office of the Economic Adviser in the Pay Scale of PB-2 Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,600/- on regular basis with effect from the forenoon of 16.03.2012, until further orders.

S. S. NEGI, Economic Adviser

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 6th March 2012

No. A-22011/1/2010-Estt.(Pt.)—On the basis of the results of the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2006, 2007 and 2008, and consequent upon inclusion of his name in the Select List 2007 of Section Officers' Grade vide Department of Personnel and Training's Office Memorandum No. 6/3/2011-CS.I(S) dated 27.10.2011, the President is pleased to appoint Shri Gya Prasad, a regular Assistant of CSS as Section Officer on regular basis in Central Secretariat Service cadre of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises with effect from the forenoon of 01.03.2012, until further orders.

2. The appointment of Shri Prasad to the Grade of Section officer of CSS shall be subject to the outcome of the following Court cases :—

- (i) OA No. 1083/2007, MA No. 1171/2007 & MA of 2011 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UoI in CAT, New Delhi.
- (ii) OA No. 2136/2010 filed by Shri A. K. Nandy & Ors. Vs. UoI in CAT, New Delhi.
- (iii) OA No. 2469/2010 filed by Shri Vikas Tripathi & Ors. Vs. UoI in CAT, New Delhi.
- (iv) OA No. 1253/2009 filed by Shri A. Prakash & Ors. Vs. UoI in CAT, New Delhi.
- (v) OA No. 2584/2011 and MA No. 1987/2011 filed by Shri Prodip Kumar Mondal Vs. UoI in CAT, New Delhi.

P. P. MURALIDHARAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 29th March 2012

No. A-11011/6/2007-Estt.—Consequent upon inclusion of their name in the Select List of Principal Private Secretary

of CSSS for the year 2010 vide Department of Personnel and Training's O.M. No. 3/3/2011-CS.II(A) dated 20th March, 2012, the President is pleased to appoint the following ad hoc Principal Private Secretaries of CSSS Cadre of this Department as Principal Private Secretary of CSSS on regular basis against the Select List Year 2010 in the Department of Consumer Affairs with effect from the forenoon of 20th March, 2012 and until further orders :—

| Sl. No. | Name |
|---------|----------------------|
| 1. | Shri Rana Das |
| 2. | Shri Mahendra Prasad |

PREMA BHATT, Under Secy.

DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 27th February 2012

No. A-38014/13/2011-E.I.—Shri H. C. Bhatia, Private Secretary of CSSS of the Department of Food & Public Distribution will retire from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 29th February, 2012.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

The 23rd March 2012

No. A-38014/16/2011-E.I.—Smt. Narinder Kaur Viridi, Private Secretary of CSSS of the Department of Food & Public Distribution will retire from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st March, 2012.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

No. A-38014/17/2011-E.I.—Shri Ved Singh, Section Officer of CSS of the Department of Food & Public Distribution will retire from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st March, 2012.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

No. A-38014/15/2011-E.I.—Shri Sat Pal, Director of CSSS of the Department of Food & Public Distribution will retire from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st March, 2012.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 28th March 2012

No. A-12025/68/2011-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Amit Kumar Yadav, to the Post of Assistant Professor in the Speciality of Pathology in the Teaching Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of the 21st October, 2011 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 7th March 2012

No. A-12026/2/2011-EA—The President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Anandi Ravichandran, an Officer of Indian Economic Service (IES : 82), to the post of Member Secretary in the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), Department of Agriculture and Cooperation, on deputation basis in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 10,000/- (GP) for a period of five years, with effect from the forenoon of 1st March, 2012.

A. K. ARORA, Under Secy.

New Delhi, the 24th March 2012

No. 4-4/2006-Extn.(Pt.)—The President is pleased to continue the appointment of Shri S. M. H. Kazmi, Joint Director (FI), as Director (FI)G.C.S., Group 'A' Gazetted in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/- in the Directorate of Extension, Deptt. of Agriculture and Cooperation, on adhoc basis for a further period of three months w.e.f. 28th December, 2011, i.e. upto 27th March 2012 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade of Director (FI).

R. S. VERMA, Under Secy.

No. 4-5/2005-Extn.—The President is pleased to continue the appointment of Shri C. K. Haridas, Joint Director (FI), G.C.S., Group 'A' Gazetted in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- in the Directorate of Extension, Deptt. of Agriculture and Cooperation, on ad hoc basis for a further period of three months from 1st January, 2012, i.e. upto 31st March 2012 or till the post

is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade of Joint Director (FI).

R. S. VERMA, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING
& FISHERIES

New Delhi, the 29th March 2012

No. A-15012/07/2011-Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Shri Subhash Chand Khatri, Under Secretary in this Department retires from Government Service with effect from the afternoon of 31.03.2012.

SUBHASH CHAND KHATRI, Under Secy.

No. A-15012/08/2011-Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Shri Abhay Raj Singh Yadav, Section Officer in this Department retires from Government Service with effect from the afternoon of 31.03.2012.

SUBHASH CHAND KHATRI, Under Secy.

No. A-15012/10/2011-Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Smt. Neelam Bhatnagar, Private Secretary in this Department retires from Government Service with effect from the afternoon of 31.03.2012.

SUBHASH CHAND KHATRI, Under Secy.

New Delhi, the 30th March 2012

No. 3-29/2009-Fy. (Admn.)—The President is pleased to appoint Shri A. Ravichandran to the post of Chief Instructor (Marine Engineering) in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- (General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial) in Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training (CIFNET), Kochi w.e.f. 16.03.2012 (Afternoon) in a temporary capacity and until further orders.

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi-110114, the 29th March 2012

No. A-12021/01/1999-Estt.-II—The President is pleased to appoint Shri Harbhajan Singh as Senior Principal Private Secretary in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- plus

Grade Pay of Rs. 7,600/- and included in the Select List Year 2011 of the CSSS cadre of the Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 17 February, 2012.

GEORGE Y., Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION
TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 28th February 2012

No. PF-589/Admn.-I—On attaining the age of superannuation, Shri Chandra Prakash, Member (Technology), Telecom Commission and Ex-officio Secretary to the Govt. of India shall stand retired from Government Service with effect from the afternoon of 29 February, 2012

NIRMALA DEV, Under Secy.

The 29th February 2012

No. PF-1423/Admn.-I—On attaining the age of superannuation, Shri Jawahar Lal, Section Officer (ad hoc), Department of Telecommunications shall stand retired from the Government Service with effect from the afternoon of 29 February, 2012

NIRMALA DEV, Under Secy.

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

(NATIONAL INFORMATICS CENTRE)

New Delhi-110003, the 28th March 2012

No. PF-2723/NIC/2012/Admn.-I—Shri Ramesh Chandra Patra, Scientist "F", Emp. Code: 2723, NIC-Orissa State Unit, Bhubaneswar has been retired on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 29 February, 2012 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Jt. Director (Adm-I)

No. PF-44/NIC/2012/Admn.-I—Shri Naba Kumar Das, Scientist "G" (Deputy Director General), Emp. Code : 44, NIC-West Bengal State Unit, Kolkata has been retired on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 31 January, 2012 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Jt. Director (Adm-I)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 22nd March 2012

No. ERB-I/2007/10/4—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 29.02.2012.

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| (i) Ms. B. K. Minz | Joint Secretary (E). |
| (ii) Shri Paramjit Singh | Sr. Principal Private Secretary. |
| (iii) Shri S. C. Sharma | Deputy Director. |
| (iv) Shri A. K. Maheshwari | Deputy Director. |
| (v) Shri Prem Kumar | Section Officer. |
| (vi) Shri K. S. Dixit | Section Officer. |

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

No. ERB-I/2007/10/4—Shri L. C. Bajaj, Deputy Director, Railway Board, retired voluntarily from service with effect from the afternoon of 29.02.2012.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

No. ERB-I/2007/10/4—Shri Sanjiv Handa, Member Mechanical Railway and Ex-officio Secretary to the Government of India in the Ministry of Railways retired from service with effect from the afternoon of 29.02.2012, on attaining the age of superannuation.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

The 23rd March 2012

No. ERB-I/2011/2/32—Shri B. Majumdar, Director's Grade officer of Railway Board Secretariat Service (RBSS) has been promoted to Senior Administrative Grade (Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay Rs. 10,000/-) with effect from the forenoon of 01.03.2012.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 23rd February 2012

No. A-38013/2/2011-Estt.-II (B)—On attaining the age of superannuation, Shri A. K. Majumdar, Chief Draughtsman, an officer of the General Central Service, Group 'B' in the Ministry

of Road Transport and Highways has retired from Government Service on 31.01.2012(AN).

D. R. SHARMA, Under Secy.

The 22nd March 2012

No. A-12025/1/2012-E.-II—The President is pleased to appoint Shri Amit Munjal as Assistant Executive Engineer (Civil) of Central Engineering Service (Roads) Group 'A' in the Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with the Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 01.03.2012 (F.N.) and until further orders.

D. R. SHARMA, Under Secy.

No. A-12025/1/2012-E.-II—The President is pleased to appoint Shri Arpan Kumar as Assistant Executive Engineer (Civil) of Central Engineering Service (Roads) Group 'A' in the Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with the Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 28.02.2012 (F.N.) and until further orders.

D. R. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 23rd February 2012

No. 04/2012 (F. No. 12/12/2011Adm.-II)—On attaining the age of superannuation, Shri Kailash Chandra Sharma, Under Secretary, Ministry of Power retired from Government Service on the afternoon of the 31 December, 2011.

P. P. BOSE, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 19th March 2012

No. A-22011/3/2012-Admn.-I—The President is pleased to appoint Shri Susheel Kumar, IAS (UP : 82) as Joint Secretary (Housing) in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- and Grade Pay of Rs. 10,000/- in the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation with effect from 09.03.2012 (AN) for a period of 5 years or until further orders, whichever is the earliest.

JITENDER KUMAR, Under Secy. (Admn.)

The 26th March 2012

No. A-22013/3/2011Adm.-I—Consequent upon his promotion to the Grade of Assistant Director (OL) on

ad hoc basis as per orders contained in the Department of Official Language's Order No. 5/15/2011-OL (Service) dated 10.02.2012 and subsequent Orders dated 27.02.2012, the President is pleased to appoint Shri Arun Kumar Sharma, Senior Translator, to the post of Assistant Director (OL) on ad hoc basis w.e.f. 27.02.2012.

JITENDER KUMAR, Under Secy.

The 29th March 2012

No. A-22017/1/2006-Adm.-I (Pt.)—Consequent upon his promotion to the Grade of Deputy Director (OL) on ad hoc basis as per orders contained in the Department of Official Language's Order No. 5/16/2011-OL (Service) dated 09.02.2012, the President is pleased to appoint Shri Om Prakash, Assistant Director (OL) to Deputy Director (OL) on ad hoc basis w.e.f. 06.03.2012.

JITENDER KUMAR, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012